



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1062 राँची, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 नवम्बर, 2018

**संख्या-5/आरोप-1-200/2017-2760 (HRMS)--** चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री इशितयाक अहमद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-769/03, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन पंचायती राज पदाधिकारी, गिरिडीह के विरुद्ध जाँच में उदासीनता बरतने जिसके कारण इंदिरा आवास योजना का लाभ वास्तविक लाभुक को न मिलकर किसी अन्य को मिलने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-986/विधि, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री अहमद के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री अहमद को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री अहमद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री अहमद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ISHTEYAQUE AHMED BHR/BAS/3519	श्री इश्तियाक अहमद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-769/03, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन पंचायती राज पदाधिकारी, गिरिडीह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----